

डेम् शोड - आगरा छाबनी

1. शोड - आर्गेनाइजेशन

डेम् शोड, आगरा ने शंटिंग लोको के अनुरक्षण हेतु सितम्बर 1986 में कार्य करना प्रारम्भ किया था यह अनुरक्षण केन्द्र आगरा छाबनी स्टेशन से 1.25 कि.मी. दिल्ली की ओर उत्तर दिशा में KM 1344/5 पर स्थित है | मंडल यांत्रिक इंजी. (डेम्) इस संस्थान के पद प्रमुख है | इस संस्थान के साथ में एक स्टोर आर्गेनाइजेशन भी है जिसको वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक द्वारा नियंत्रित किया जाता है |

2. चल स्टॉक होल्डिंग

वर्तमान में ईदगाह-बादीकुई एवं आगरा छाबनी - इटावा सेक्शन में रेल सेवा प्रदान करने हेतु डेम् शोड आगरा में चार डेम् रैक (1400HP) का अनुरक्षण किया जाता है | प्रत्येक डेम् रैक में दो डी0 पी0 सी0 एवं छः टी0 सी0 का प्रावधान है

Driving Power Car [DPC]	09
Trailer Car [TC]	24

3. डेम् कार शोड आगरा छाबनी द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. 09 डी0पी0सी0 एवं 24 टी0सी0 के सम्पूर्ण अनुरक्षण का कार्य |
2. 140 टन क्रेन एवं स्पार्ट के अनुरक्षण का कार्य |
3. RDI आगरा छाबनी का सम्पूर्ण अनुरक्षण एवं संचालन |

4. डेम् कार शोड आगरा छाबनी द्वारा संचालित ट्रेन सर्विसेज का विवरण

- अ. एक डेम् रैक (8 कोच वाली) द्वारा ट्रेन नं. 71901-71906 तक (ईदगाह-भरतपुर-बादीकुई सेक्शन) में 6 लिंक का संचालन किया जाता है |
- ब. दो डेम् रैक द्वारा ईदगाह-बादीकुई सेक्शन के बीच में ट्रेन नं. 71907-08 एवं AGC-ETW-MNQ AGC सेक्शन में ट्रेन नं. 71909-10 का संचालन किया जाता है |

5. ईंधन संस्थान (फ्यूलिंग इंस्टालेशन)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा डेम् कार शोड आगरा छाबनी में “नो चार्ज बेसिस” पर फ्यूलिंग इंस्टालेशन की स्थापना की गई है | जिसमें 70 किलो लीटर क्षमता वाले तीन सिलेण्डरीकल टैंक क्षैतिज आधार पर जमीन से ऊपर स्थापित किये गये हैं | स्नेहक तेल की आपूर्ति के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा 20 हजार लीटर की क्षमता वाला एक अन्य सिलेण्डरीकल टैंक भी स्थापित किया गया है |